

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय एवं वियतनाम तटरक्षक के बीच उच्च स्तरीय बैठक - 29 मई 17

1. वरिष्ठ कर्नल फाम किम हाऊ, वाइस कमांडेंट के नेतृत्व में वियतनाम तटरक्षक (पीसीजी) का चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल 28 से 31 मई 17 तक भारत के सरकारी दौरे पर आया हुआ है। सन् 2015 में दोनों एजेंसियों के बीच हुए समझौते के अनुसार 29 मई 17 को भारत एवं वियतनाम तटरक्षक के मध्य, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
2. सन् 2003 में भारतीय तटरक्षक पोत तकनीकी अंतर्व्यवहार हेतु वियतनाम बंदरगाह पर पहुँची थी, तभी से दोनों तटरक्षकों के बीच संबंध बरकरार है। समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा के क्षेत्र में दोनों तटरक्षकों के मध्य सहयोग हेतु दोनों देशों की सरकारों के प्रयासों से यह बैठक तथा दौरा आयोजित किया गया है।
3. तटरक्षक मुख्यालय के इस दौरे में, वाइस कमांडेंट वीसीजी, महानिदेशक राजेंद्र सिंह, पीटीएम, टीएम, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक से मिले तथा दोनों एजेंसियों के मध्य संस्थागत सहयोग में वृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया। तत्पश्चात् दोनों एजेंसियों के बीच उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। अपर महानिदेशक वी एस आर मूर्ती, उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उच्च स्तरीय बैठक में, खोज एवं बचाव, प्रदूषण प्रतिक्रिया एवं समुद्री कानून प्रवर्तन के विषय पर सक्रियात्मक स्तर पर बातचीत की गई तथा क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।
4. आगे समझौता ज्ञापन के अनुसार पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए। भारतीय तटरक्षक क्षमता निर्माण में वियतनाम तटरक्षक की सहायता करेगा। दोनों विभाग तकनीक विकास हेतु पारस्परिक आदान-प्रदान एवं पोतों के दौरों पर विशेष बल देंगे। वियतनाम तटरक्षक अपने एक पोत के सद्भावनापूर्वक भारतीय दौरे के प्रति विचार कर रहा है तथा अगले वर्ष होने वाली उच्चस्तरीय बैठक को वियतनाम में आयोजित करने की पेशकश कर रहा है। दोनों एजेंसियों के बीच पहले से स्थापित व्यावसायिक रिश्तों को और सुदृढ़ करने की कड़ी में बैठक महत्वपूर्ण थी।

